

GOD'S SIMPLE PLAN OF SALVATION

Introduction

1 John 5:13 “These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.”

I आबो काय लागित् धेराव गयाबोन।

रोमांस 3:10 “As it is written, There is none righteous, no, not one:”

रोमियो 3:23 “जोतो होइ बोन काय आकादा आर इसोराक् ओइहें बोन कोम आकादा।”



आबो काय लागित् धेराव गयाबोन।

II यीशु क्रुस रेय गोच् एना आबोवाक् गोच् – साजाय ए आङ्गोच् केदा।

रोमियो 6:23 चेदाक् जे काय रेयाक् कुड़ाई काना गुजुक्। मेनखान परमेसोर आक् सान्देस आबो रेन यीशु मसीह दाराय ते सोरोल जियोन मेनाक्आ।

Rev. 21:8 “But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.”

III ओक्वारिच् लेकाते यीशु मसीह रे आमाक् पातियाव जोगाव हुयुक् तामा।

इफेसियन्स

रोमांस 5:8 इसोर आबो लागित् नोवा रे दुलाइ ए सोदोरेत् काना जाहाँतिन हाबिच् कामियिच् ए ताहेंकानबो यीशु आबो लागित ए गोच् एना।

जॉन 3:16-17 “इसोराक् धारती रे नुनाक् दुलाइ मेनाक्आ जे आच् एकापुत् होपोन ए एमाक् बोना जाहाँय उनी रे को पातियाक्आ सोरोस जियोन को आमा तिस हों बाड नासोक्आ।परमेसोर आच् रेन होपोन धारती रे धारती दुसाव लागित् दो बाय कोल आकादेया बिच्कोम उनीदाराय ते धारती बाञ्चाव ए कोल आकादेया।”

रोमियो 6:23b मेनखान परमेसोर आक् सान्देस आबो रेन यीशु मसीह दाराय ते सोरोल जियोन मेनाक्आ।



Christ died for sinners!

IV आम एम त्राम दाइयाक्आ परमेसोराक् पातियाव दुलाइ आर दायाते।

इफिसियो 2:8-9 आम लागित् नोवा ओराम आकाना जे पातियाव दाराय ते बाञ्चाव आकात् बोना नाकआ आर आम सेच् खोन बानुक्, नोवा इसोर ए कामीयेत् काना- जोतेथे जाहाँय मित् घमंद जाहाँय नोवा सिरपा बाय एम दाइयाको

Titus 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;

Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

V ओक्वारिच् लेकाते यीशु मसीह रे आमाक् पातियाव जोगाव हुयुक् तामा।

इफेसियन्स

रोमांस 10:9,10 जुदी आम आमाक् मोचा ते प्रभु यीशुयेम सिकारेया आर आमाक् रिदाय रे पातियाक् आम जो परमेसोर, दो उनी गुजुक् खोन ए ओवारा, बाञ्चाव आकादिजा, आमेम हुयुक्आ For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.”

रोमांस 10:13 “For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.”

हैं नोवा आवसान गया! आम परमेसोर ठेच् खोन इका बाम कोम दाड़ेयाक्आ। आम आमाक् इका लागित् बाम एम दाड़ेयाक्आ परमेसोर सेच् खोन। आम एम जाम दाड़ेयाक्आ परमेसोराक् पातियाव दुलाइ आर दायाते। जुदी आम आम रेन ओक्वारिच् लेकाते यीशु मसीह एम सिकार एकाना आर इका जाम सानाम काना परमेसोर सेच् खोच् नोण्डे आम नेहोर (प्रार्थना) दाड़ेयाक्आ। नोवा नेहोर लागित् आम मित् परमेसोर रे आमाक् पातियाव सोदोरमे आर आम इका काम लागित् थुम सारहाव रेयाक् भावाँर काना।



“परमेसोर

इज बाडाया जे इज आम बिरुद इज काय आकात्आ आर साजाय जाम रेन भागी कानाज। मेनखान साजाय यीशु मसीह रे पातियाव काते इका लेकमानिच् इज हुय दाड़ेयादा हाताव केदा। इज आम रे ओक्वारिच् लेकाते आम रे पातियाव इज दोहोयेदा आमाक् हाहाइ दुलाइ आर इका लागित् आम थुम सारहाव आमीन!”